



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1946 (श0)

(सं0 पटना 1231) पटना, शुक्रवार, 27 दिसम्बर 2024

सं0 03/नमामि गंगे-02-08/2024-9994/न०वि०एवंआ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

20 दिसम्बर 2024

विषय :- नमामि गंगे योजना (100% सेन्ट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत मोतिहारी में इंटरसेप्शन एण्ड डार्डभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत कुल राशि रु० 149,15,67,000/- (एक सौ उनचास करोड़ पन्द्रह लाख सड़सठ हजार मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति तथा राज्य सरकार द्वारा देय सेंटेंज की राशि रु० 5,69,15,670/- (पांच करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तर रुपये) अर्थात् कुल रु० 154,84,82,670/- (एक सौ चौवन करोड़ चौरासी लाख बयासी हजार छः सौ सत्तर रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के अर्न्तगत सभी घरों/प्रतिष्ठानों से आने वाले सिवेज को ट्रीटमेंट उपरांत प्रवाह किया जाना है ताकि गंगा नदी की सहायक धनौति नदी में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। भूमि की उपलब्धता के आधार पर इंटरसेप्शन एण्ड डार्डभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डी०पी०आर० तैयार कर एन०एम०सी०जी०, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। एन०एम०सी०जी० के पत्रांक-Pr-22014/3/2022/NMCG, दिनांक-24.01.2023 द्वारा कुल लागत व्यय 149,15,67,000/- रुपये (एक सौ उनचास करोड़ पन्द्रह लाख सड़सठ हजार मात्र) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है, जिसे सेंटेंज के रूप में 5,69,15,670/- रुपये (पांच करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तर रुपये) देय है। मोतिहारी इंटरसेप्शन एण्ड डार्डभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना जिसकी कुल अनुमानित लागत (सेन्टेज सहित) 154,84,82,670/- रुपये (एक सौ चौवन करोड़ चौरासी लाख बयासी हजार छः सौ सत्तर रुपये मात्र) पर प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन एन०एम०सी०जी० से स्वीकृति के शर्तों के अधीन किया जाएगा। उक्त परियोजना का प्रमुख घटक निम्नवत् है:-

क्र०सं०	मुख्य घटक	संख्या
1.	4 अद्द सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण (क्षमता 4.6 MLD, 6.3 MLD, 5.8 MLD, 6.3 MLD)	23 MLD

क्र०सं०	मुख्य घटक	संख्या
2.	सीवरेज पम्पिंग स्टेशन	3 अद्द
3.	इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन	6.263 कि०मी०
4.	संचालन एवं रख-रखाव	15 वर्ष

2. मोतिहारी एक महत्वपूर्ण शहर है, जो धनौति नदी के किनारे बसा है। धनौति नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी या इसके सहायक नदियों के किनारे अवस्थित किसी शहर के अनुपचारित मलजल को गंगा नदी/सहायक नदियों में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मोतिहारी में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2050 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस परियोजना के माध्यम से मोतिहारी शहर के लगभग सभी घरों को लाभ मिलेगा। मोतिहारी शहर के सभी आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सीवरेज को इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन के जरिये सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सीवरेज को शोधित कर पुनः उपयोग किया जाएगा। वर्तमान समय में मोतिहारी नगर निगम में सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने के कारण यहाँ से निकलने वाले सीवरेज को सीधे मोतीझील, केरारी झील एवं धनौति नदी में प्रवाहित किया जाता है। मोतिहारी शहर में 4 अद्द सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। इस योजना को कुल 33 महीनों में पूरा किया जाना है। सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाना है।

3. मोतिहारी में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए 100% राशि 149,15,67,000/- रुपये (एक सौ उनचास करोड़ पन्द्रह लाख सड़सठ हजार मात्र) तथा बिहार सरकार, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक- 25.01.2016 के अनुरूप सेंटेंज की राशि कुल 5,69,15,670/- रुपये (पांच करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तर रुपये) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। कुल राशि 154,84,82,670/- रुपये (एक सौ चौवन करोड़ चौरासी लाख बयासी हजार छः सौ सत्तर रुपये मात्र) का व्यय संभावित है। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

(राशि रुपये में)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश (100%)	राज्यांश सेन्टेज राशि	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	2	3	4	5
1	2024-2025	30,00,00,000.00	1,50,00,000.00	31,50,00,000.00
2	2025-2026	50,27,51,000.00	2,71,37,550.00	52,98,88,550.00
3	2026-2027	4,59,21,066.67	22,96,053.33	4,82,17,120.00
4	2027-2028	4,59,21,066.67	22,96,053.33	4,82,17,120.00
5	2028-2029	4,59,21,066.67	22,96,053.33	4,82,17,120.00
6	2029-2030	4,59,21,066.67	22,96,053.33	4,82,17,120.00
7	2030-2031	4,59,21,066.67	10,01,810.00	4,69,22,876.00
8	2031-2032	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,277.00
9	2032-2033	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,277.00
10	2033-2034	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,277.00
11	2034-2035	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,277.00
12	2035-2036	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,276.00
13	2036-2037	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,276.00
14	2037-2038	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,276.00
15	2038-2039	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,276.00
16	2039-2040	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,276.00
17	2039-2040	4,59,21,066.67	4,59,210.67	4,63,80,276.00
कुल राशि		1,49,15,67,000.00	5,69,15,670.00	1,54,84,82,670.00

4. संचालन एवं रख-रखाव:- इस परियोजना का संचालन एवं रख-रखाव 15 वर्ष तक संवेदक द्वारा ही किया जाना है तथा उसका व्यय परियोजना से होगा। परियोजना की समाप्ति अवधि के पश्चात् संचालन एवं रख-रखाव का व्यय राज्य सरकार/नगर निगम, मोतिहारी द्वारा वहन किया जायेगा। नमामि गंगे योजना के अधीन निर्माण किये जाने वाले इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना मद में राशि एन0एम0सी0जी0 द्वारा दी जाती है। यह एक नई योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से बुडको को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार एवं बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति को बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बुडको राज्य सरकार का एक उपक्रम है।

5. परियोजना के अनुमानित लागत का 100: वहन नमामि गंगे योजना, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा, जो भारत सरकार द्वारा सीधे बैंक खाता में हस्तांतरित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सेंटेंज मद की राशि का वहन किया जायेगा। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक-25.01.2016 के अनुरूप सेंटेंज की राशि कुल रु० 5,69,15,670/- (पांच करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तर रुपये) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। योजना में कुल राशि रु० 154,84,82,670/- (एक सौ चौवन करोड़ चौरासी लाख बयासी हजार छः सौ सत्तर रुपये मात्र) का व्यय संभावित है। इस योजना में राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जाएगा :-

- (i) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-106-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण-उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215021060302 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।
- (ii) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-0305-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215027960305 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0305.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।
- (iii) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0303-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215027890303 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0303.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।

6. अतः उक्त के आलोक में नमामि गंगे योजना (100% सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत मोतिहारी में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत कुल राशि रु० 149,15,67,000/- (एक सौ उनचास करोड़ पन्द्रह लाख सड़सठ हजार मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति तथा राज्य सरकार द्वारा देय सेंटेंज की राशि रु० 5,69,15,670/- (पांच करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ सत्तर रुपये) अर्थात् कुल रु० 154,84,82,670/- (एक सौ चौवन करोड़ चौरासी लाख बयासी हजार छः सौ सत्तर रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

7. उपर्युक्त कंडिका-06 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19.12.2024 की बैठक में मद सं० 06 में स्वीकृति दी गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
अमय कुमार सिंह
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1231-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>